



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2006/फाल्गुन 5, 1927

No. 173]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2006/PHALGUNA 5, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2006

का.आ. 249(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 23 फरवरी, 2006 के का.आ. 243(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 17/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 23 फरवरी, 2006 में :—

अनुसूची-I में क्रम सं. 11 पर स्तम्भ सं. 3 में अमेरिकी डालर की दरों के लिए "44.50" के स्थान पर "44.30" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 468/4/2006-सीमा शुल्क-V]

एस. पी. राव, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 23 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. 17/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.) [का.आ. 243(अ)], दिनांक 23 फरवरी, 2006 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th February, 2006

S.O. 249(E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 17/2006-(N.T.)-Customs, dated the 23rd February, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 243(E), dated the 23rd February, 2006 :—

In Schedule-I at S.No. 11, rates of US Dollar in Column No. 3 for "44.50" be read as "44.30".

[F. No. 468/4/2006-Cus.-V]

S. P. RAO, Under Secy.

Note : The Principal Notification has been published in the Gazette of India, Extraordinary vide Notification No. 17/2006-(N.T.)-Customs, dated the 23rd February, 2006 [S.O. 243(E)], dated the 23rd February, 2006.